



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 839 राँची, शुक्रवार

31 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-93/2017-1946 (HRMS)-- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3241, दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा श्री गिरिजा शंकर महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये -

आरोप सं०-1. दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा आहूत विडियो कांफ्रेंसिंग में हिरणपुर प्रखण्ड में कुल 1287 लाभुकों का खाता सत्यापित हो चुका था, लेकिन मात्र 658 लाभुकों का ही FTO Sign किया गया। उक्त तिथि तक 629 लाभुकों का FTO Sign करना शेष था। दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को आवास सॉफ्ट के आँकड़ों के अनुसार अभी भी 629 लाभुकों का FTO Sign करना शेष है जबकि 20 अप्रैल, 2017 को इसे शून्य करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा विडियो कांफ्रेंसिंग में दिया गया था।

आरोप सं०-2. दिनांक 25 अप्रैल, 2017 तक प्रतापपुर प्रखण्ड में कुल 1776 इकाई आवास के विरुद्ध 1576 आवास का निबंधन हुआ है लेकिन मात्र 1389 का ही Geo Tag किया गया है।

आरोप सं०-3. श्री कुमार का उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-8211, दिनांक 19 जुलाई, 2017 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री महतो के पत्रांक-898, दिनांक 10 अगस्त, 2017 द्वारा बिन्दुवार समर्पित स्पष्टीकरण किया गया .

3. विभागीय पत्रांक-12335, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से श्री महतो के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया मंतव्य निम्नवत् है-

“श्री महतो से प्राप्त स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि इनके द्वारा 21 अप्रैल, 2017 के अपराहन में मो० जफर हसनात से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर का प्रभार लिया गया । श्री महतो पर दिनांक 20 अप्रैल, 2017 तक के प्रगति के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था । वस्तुतः आरोप गठन के समय प्रभार प्रतिवेदन का संज्ञान नहीं लिया जा सका था तथा 20 अप्रैल, 2017 तक के न्यून प्रगति के आलोक में उस पदाधिकारी पर आरोप गठित हो गया, जिसने 21 अप्रैल, 2017 के अपराहन में योगदान किया था । उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में, श्री महतो को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है ।”

4. श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी. समीक्षोपरांत, श्री गिरिजा शंकर महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरनपुर, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया जाता है.

SL No.	Employee Name G.P.F No.	Decision of the Competent Authority
1	2	3
1	GIRIJA SHANKAR MAHTO JHK/JAS/169	श्री गिरिजा शंकर महतो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर पाकुड़ को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3241, दिनांक 22/06/2017 द्वारा गठित प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोप से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
